



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

27 फाल्गुन 1940 (श0)
(सं0 पटना 436) पटना, सोमवार, 18 मार्च 2019

ग्रा0वि0-6/अभि0-03-03/2019-415764

ग्रामीण विकास विभाग

संकल्प

8 मार्च 2019

विषय:- जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में दिनांक 01.04.1999 के पूर्व से नियमित वेतनमान में नियुक्त सम्प्रति कार्यरत अवशेष तैतीस (33) कर्मियों, जो माननीय उच्च न्यायालय के किसी विशिष्ट आदेश से आच्छादित नहीं हैं, की सेवा समाहरणालय के अन्तर्गत रिक्त पदों पर सरकारी सेवक के रूप में समायोजित किये जाने के संबंध में।

जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों में दिनांक-01.04.1999 के पूर्व नियमित वेतनमान में नियुक्त तथा सम्प्रति कार्यरत अवशेष तैतीस (33) कर्मियों, जो माननीय उच्च न्यायालय के किसी विशिष्ट आदेश से आच्छादित नहीं हैं, की सेवा मंत्रिमंडल की दिनांक-08.03.2019 की बैठक में मद सं0-14 में लिए गये निर्णय के आलोक में निम्न शर्तों के अधीन सरकारी सेवक के रूप में समाहरणालय के रिक्त पदों पर समायोजित करने का निर्णय लिया गया है :-

- (i) दिनांक- 01.04.1999 के पूर्व से नियमित वेतनमान में नियुक्त एवं कार्यरत अवशेष तैतीस (33) कर्मियों, जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित किसी विशिष्ट आदेश से आच्छादित नहीं हैं, का समाहरणालय के अंतर्गत रिक्त पदों पर सरकारी सेवक के रूप में समायोजन आदेश निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा। (तैतीस (33) कर्मियों की सूची अनुलग्नक-‘1’ के रूप में संलग्न)।
- (ii) ऐसे समायोजन के मामलों में नियुक्ति की अधिकतम उम्र सीमा शिथिल समझी जाएगी।

- (iii) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में कार्यावधि की किसी प्रकार की देनदारी/बकाया के भुगतान के लिए राज्य सरकार उत्तरदायी नहीं होगी ।
- (iv) समायोजन के क्रम में आरक्षण नियमों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा ।
- (v) समायोजित कर्मियों को निगम/सोसाईटी में प्राप्त हो रहे वेतन, समायोजित पद के वेतनमान में, संरक्षणीय होगा । अर्थात पैतृक निगम/सोसाईटी में धारित पद हेतु प्रभावी वेतनमान संरक्षणीय नहीं होगा, बल्कि कुल प्राप्त वेतन ही संरक्षणीय होगा ।
- (vi) पेंशनादि के प्रयोजनार्थ जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की सेवावधि गणनीय नहीं होगी। निगम/सोसाईटी के समायोजित कर्मों राज्य सरकार की नई पेंशन योजना-2005 से आच्छादित होंगे ।
- (vii) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में लागू कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अधीन संबंधित कर्मों द्वारा सोसाईटी की सेवावधि में किये गये अंशदान एवं संस्था द्वारा दिए गए अंशदान की कुल राशि सूद सहित भुगतान की जिम्मेवारी संबंधित निगम/सोसाईटी की होगी ।
- (viii) समायोजित कर्मियों की वरीयता का निर्धारण सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा वरीयता निर्धारण संबंधी संकल्पों/परिपत्रों के अनुरूप किया जाएगा ।
- (ix) समायोजन के पश्चात उनकी प्रोन्नति, समायोजित पद के संवर्गीय नियमावली में विहित प्रावधानों के आलोक में होगी ।
- (x) एम.ए.सी.पी. के प्रयोजनार्थ जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में अधीन पूर्व की सेवावधि गणनीय नहीं होगी ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रतिलिपि सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अरविन्द कुमार चौधरी,
सचिव।

अनुलग्नक-1

दिनांक-01.04.1999 के पूर्व जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में नियमित रूप से नियुक्त एवं वर्तमान में कार्यरत वैसे कर्मियों की सूची जिनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर नहीं किया गया है।

क्र.सं.	नाम	संबंधित जिला ग्रामीण विकास अभिकरण से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार				अभियुक्ति
		पदनाम	जन्म तिथि	से0नि0 की तिथि	संबंधित डी.आर.डी.ए. का नाम	
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री सुनील कुमार	सहायक	02.01.1960	31.01.2020	औरंगाबाद	
2	श्री अजीत कुमार दास	सहायक	06.01.1961	31.01.2021	कटिहार	
3	श्री मणिलाल सिंह	चालक	01.03.1961	28.02.2021	खगड़िया	
4	श्री मणि भूषण सिन्हा	प्रधान सहायक	01.02.1965	31.01.2025	गया	
5	श्री राम नारायण सिंह	अनुसेवक	12.01.1964	31.01.2024		
6	श्री राम विनोद पासवान	कार्या0 परिचारी	02.01.1962	31.01.2022	गोपालगंज	
7	श्री चन्देश्वर महतो	कार्या0 परिचारी	25.08.1961	31.08.2021		

क्र.सं.	नाम	संबंधित जिला ग्रामीण विकास अभिकरण से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार				अभियुक्ति
		पदनाम	जन्म तिथि	से0नि0 की तिथि	संबंधित डी.आर.डी.ए. का नाम	
1	2	3	4	5	6	7
8	श्री दिनेश ठाकुर	लिपिक-सह-टंकक	15.01.1964	31.01.2024	दरभंगा	
9	श्री मुन्द्रिका प्रसाद सिंह	कार्या0 परिचारी	20.12.1959	31.12.2019	नवादा	
10	श्री दयानन्द राजवंशी	कार्या0 परिचारी	15.03.1959	31.03.2019		
11	श्री भोला प्रसाद	कार्या0 परिचारी	20.01.1960	31.01.2020		
12	श्री संजय कुमार	लिपिक	05.02.1974	29.02.2034	पटना	
13	श्रीमती रीना गुप्ता	लिपिक	19.08.1966	31.08.2026		
14	श्री मनोज कुमार सिन्हा	सहायक	01.06.1961	31.05.2021	पूर्णिया	
15	श्री राम चन्द्र चौधरी	चालक	03.03.1960	31.03.2020	बेगूसराय	
16	श्री महेश कुमार पाण्डेय	सहायक	03.02.1967	28.02.2027	भभुआ	
17	श्री प्रदीप कुमार	लेखापाल	20.11.1964	30.11.2024		
18	श्री रंग बहादुर सिंह	परिचारी	25.01.1967	31.01.2027		
19	मो0 क्यूम	चालक	10.01.1960	31.01.2020	भागलपुर	
20	श्री रामावतार प्रसाद साह	कार्या0 परिचारी	10.01.1964	31.01.2024		
21	श्रीमती भादो देवी	कार्या0 परिचारी	03.01.1962	31.01.2022		
22	श्री नन्द किशोर सिंह	लि0-सह-टंकक	05.01.1963	31.01.2023	मधेपुरा	
23	श्री उमेश कुमार	लि0-सह-टंकक	15.08.1965	31.08.2025		
24	श्री राजेन्द्र पासवान	लि0-सह-टंकक	06.03.1966	31.03.2026		
25	श्री भूपेन्द्र प्रसाद यादव	रात्रि प्रहरी	05.02.1964	28.02.2024	मुंगेर	
26	श्री कपिलदेव प्रसाद यादव	चालक	20.11.1962	30.11.2022		
27	श्री रामशीष यादव	चालक	09.02.1966	28.02.2026		
28	श्री जयप्रकाश यादव	परिचारी	08.08.1960	31.08.2020	समस्तीपुर	
29	श्री सियाशरण पासवान	अनुसेवक	01.07.1961	30.06.2021		
30	श्री राजेश्वर सिंह	परिचारी	15.10.1963	31.10.2023		
31	श्री अवधेश चौधरी	चालक	15.03.1966	31.03.2026	वैशाली	
32	श्री सुनील कुमार	चालक	02.01.1969	31.01.2029		
33	श्री शिवचन्द्र दास	आदेशपाल	10.04.1965	30.04.1925		

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 436-571+100-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>